

प्रेस नोट दिनांक-28.01.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 30 लीटर कच्ची व 15 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(1). उ0नि0 श्री अर्पित कुमार पाण्डेय थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अजय सोनकर पुत्र रामनरेश निवासी पराको थाना राजापुर चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री रवि कुमार सिंह थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त छोटू सोनकर पुत्र राजबहादुर निवासी हनुमान मुहल्ला कस्बा व थाना राजापुर चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त कुलदीप पुत्र हरीहर सिंह निवासी रायपुर थाना राजापुर चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(4). उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बहिलपुरवा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त दल्लू पुत्र मोहन निवासी कस्बा व थाना बहिलपुरवा चित्रकूट को 15 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा द्वारा मु0सं0 806/2016 धारा 138 एनआईए एक्ट के वारण्टी अभियुक्त बालकृष्ण मिश्र पुत्र रमाशंकर मिश्र निवासी एफ 49 साउथ सिटी पीजीआई लखनऊ हाल पता ट्रैफिक चौराहा, नरेन्द्र मिश्र की दुकान वार्ड नं019 दिवाकर हास्पिटल के पास थाना कोतवाली कर्वी को गिरफ्तार किया गया।

(3). आज दिनांक-28.01.2021 को श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा पुलिस कार्यालय में रिकार्ड कीपर शाखा व विशेष जांच प्रकोष्ठ व जनसूचना सेल का वार्षिक निरीक्षण किया गया।

महोदय द्वारा रिकार्ड कीपर शाखा का निरीक्षण कर निम्नलिखित निर्देश दिए गए-

(1). महोदय द्वारा पुरानी हिन्दी आदेश पुस्तिकाओं को जिला अभिलेखागार में रखवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(2). स्टेशनरी की खरीददारी के सम्बन्ध में मांग पत्र मंगवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(3). आर0के0 लिपिक से पूछा गया कि किन-किन इकाइयों में जी0डी0 चलती है, उन जी0डी0 का अवलोकन किया।

(4). जी0डी0 एतराज के सम्बन्ध में पूछा गया, पिछले 01 वर्ष के जी0डी0 एतराज रजिस्टर को थाने एवं इकाइयों से कार्यवाही के बाद वापस मंगवाने हेतु निर्देश दिये गये।

(5). इंडेक्स रजिस्टर का अवलोकन किया गया।

(6). गैर हाजिरी से सम्बन्धित फाइलों का अवलोकन कर निर्देशित किया गया कि जो कर्मचारी अधिक समय से गैर हाजिर है उनके निलम्बन की कार्यवाही करवायी जाये।

(7). चरित्र सत्यापन से सम्बन्धित रजिस्ट्रों का अवलोकन किया गया, रजिस्ट्रों में गोश्वारा को प्रारूपानुसार बनवाने हेतु निर्देशित किया गया। डाक से प्राप्त चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। लम्बित चरित्र सत्यापन को समय सीमा के अन्दर निस्तारित करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

- (8). जिन थाना प्रभारियों के पास वर्ष-2020 के चरित्र सत्यापन लम्बित है, उनकी सूची बनाकर व्यक्तिगत पत्रावली पर कठोर चेतावनी निर्गत कराए।
- (9). डाक के माध्यम से प्राप्त चरित्र सत्यापन को आवेदक को पहुंचाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सम्बन्धित लिपिक से पूछा गया। प्राप्त होने वाले आवेदनों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि रजिस्टर में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि कहा से आया है एवं कहां भेजा गया है।
- (10). गार्ड फाइल का अवलोकन किया गया जिसमें शासन/पुलिस महानिदेशक महोदय/पुलिस मुख्यालय /अपर पुलिस महानिदेशक महोदय से सम्बन्धित परिपत्रों का अवलोकन किया गया।
- (11). महिलाओं से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले आदेशों-निर्देशों की 01 प्रति महिला सेल को अवश्य देने हेतु निर्देशित किया गया।
- (12). प्रधान लिपिक को निर्देशित किया गया कि रिकॉर्ड शाखा में नियुक्त कर्मियों को कार्य आवंटन किया जाए।

महोदय द्वारा विशेष जांच प्रकोष्ठ के निरीक्षण के दौरान पिछले निरीक्षणों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता धनराशि को दिलवाने हेतु समय से रिपोर्ट अग्रसारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

महोदय द्वारा जनसूचना सेल का निरीक्षण के दौरान पिछले निरीक्षणों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। फाइलों के सही प्रकार से रखरखाव हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। आवेदकों द्वारा मांगी गयी जनसूचना का समय से निस्तारित करने हेतु निर्देश दिये गये।

वार्षिक निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, श्री आलोक कुमार सिंह प्रभारी प्रधान लिपिक शाखा, श्री कमलेश राव स्टेनो पुलिस अधीक्षक, श्री दिनेश कुमार सिंह पीआरओ0 पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 28.01.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा आनन्दी माता मन्दिर, कस्बा मऊ व बस स्टैंड में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा पंडित दीनदयाल माडल इण्टर कालेज हरदीकला में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बैंक, बस स्टैंड, बिसंडा तिराहा आदि जगहों का भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा ट्राफिक चौराहा, पटेल तिराहा, एसडीएम0 कॉलोनी में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

